

संधारणीय विकास नीतियाँ

- पर्यावरण की देखभाल के साथ ही उन लोगों की सुरक्षा और कल्याण जो हमारी परियोजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, के लिए साथ-साथ परियोजनाओं को विकसित, डिजाइन और निष्पादित करने हेतु इंजीनियरिंग, पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य, खरीद, निर्माण, और संचालन में हमारी सिद्ध प्रक्रियाओं, अनुभव और नवाचार को लागू करना।
- हमारे नैतिक, कानूनी और संविदात्मक दायित्वों को संतुष्ट करते हुए संधारणीय लाभदायक विकास प्रदान करना।
- उच्चतम संभव पर्यावरण मानकों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से हमारे आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और व्यापार भागीदारों के साथ काम करना।
- संधारणीय और संसाधन कुशल प्रक्रियाओं को अपनाना और मूल्य वर्धित उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करना।
- हमारे प्रचालनों के दौरान हमारे संधारणीय लक्ष्यों को एकीकृत करना।

नीतियाँ

- संधारणीय विकास नीतियों और उद्देश्यों को स्थापित करना।
- मापने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित करना।
- कार्यान्वयन योजना डिजाइन और निष्पादन करना।
- नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और उन्हें अपनाना।
- प्रभावी निष्पादन के लिए संरचित प्रशिक्षण प्रदान करना और संसाधनों को संवर्धित करना।
- आंतरिक निगरानी प्रक्रियाओं में वृद्धि करना।
- प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए हमारे संचालन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करना।
- अन्य उद्योग संघों, भागीदारी और संगठनों जैसे टेरी / आईजीबीसी के माध्यम से सक्रिय रूप से संधारणीयता को बढ़ावा देना।
- अपशिष्ट, जल, वायु, ऊर्जा अधिनियम का पालन करना।
- पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में आईएसओ प्रमाणीकरण (आईएसओ 14001: 2015) और ऊर्जा प्रबंधन (आईएसओ: 50001: 2011)।
- संधारणीय पर्यावरण कार्यप्रणालियों के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों को पैनलबद्ध करना।
- परियोजना संधारणीयता पर ग्राहकों का फीडबैक।
- हरित प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक / मासिक रिपोर्ट के साथ एक उचित डेटा बैंक / मैनुअल का रखरखाव करना।
- अधिकांश पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को पुरस्कृत करके प्रेरक दृष्टिकोण।
- लोगों में जागरूकता के लिए सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम।
- आधिकारिक वेबसाइट पर संधारणीय रिपोर्ट तैयार और अपलोड करना।